



स मा चार

पूर्व विधायकों का अनुभव हमारी पूंजी, उनके सम्मान की रक्षा हमारा कर्तव्य: गौतम

मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों का सम्मेलन

भोपाल, दिनांक 3 मार्च, 2022

मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने आज कहा कि विधान सभा के पूर्व सदस्यों के मान सम्मान और उनकी गरिमा का पूरी तरह से ध्यान रखते हुये उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। श्री गौतम ने कहा कि पूर्व विधायकों का अनुभव हमारे लिये एक पूंजी है, आज हमे उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाना चाहिए। श्री गौतम ने कहा कि पूर्व सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

श्री गौतम ने विधान सभा स्थित सभागार में पूर्व विधायकों के सम्मेलन मे यह बात कही। उन्होंने विधायकों के हित में अनेक घोषणाएं की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी यथा संभव सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास भी किया जाएगा। इस समारोह में लगभग 260 पूर्व विधायक उपस्थित रहे और उन्होंने अपने सुझाव भी दिये। पूर्व विधायकों ने अध्यक्ष श्री गौतम की घोषणाओं और रवैये की सराहना करते हुये कहा कि इससे उन्हें काफी उम्मीदें जागी हैं। श्री गौतम ने कहा कि पूर्व विधायक जब किसी कारणवश भोपाल आते हैं, तो उन्हें ठहरने संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके निराकरण के लिए निर्णय लिया गया कि विधायक विश्राम गृह के 25 कक्ष सिर्फ पूर्व विधायकों के लिए ही आरक्षित रखे जायेंगे। इनमें से 20 पुरुष और 5 महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही आवास संबंधी व्यवस्थाओं में और सुधार लाया जायेगा।

श्री गौतम ने कहा कि पूर्व विधायक अभी भी समाज का नेतृत्व करते है और उनकी एक प्रतिष्ठा भी है। इसलिए उनके गौरव और सम्मान की रक्षा का प्रयास वे स्वयं करेंगे इसके तहत पूर्व विधायकों को रेलवे में आरक्षण संबंधी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। श्री गौतम ने कहा कि पूर्व विधायकों की यदि कोई व्यक्तिगत समस्या भी है, जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है तो वे उनके समक्ष रख सकते हैं जिसके निराकरण के प्रयास करेंगे।



स मा चार

श्री गौतम ने कहा कि आज की पीढ़ी को सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, लेकिन इसके साथ हमें जरूरी है कि जमीन पर भी काम हो इसलिए आवश्यक है कि हम पुराने अनुभवी पूर्व सदस्यों के अनुभव का लाभ भी प्राप्त करें। श्री गौतम ने बताया कि 2008 से विधान सभा में पुरस्कार प्रदान नहीं किये गये है अब इसे फिर से प्रारंभ किया जा रहा है। 9 मार्च, 2022 को लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी के कर कमलों से यह पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का सम्मेलन आगे भी आयोजित करने के प्रयास होंगे और पूर्व सदस्यों के सभी समस्याओं का निराकरण करते हुये उनके सम्मान की रक्षा की जायेगी। इस मौके पर वरिष्ठ पूर्व विधायक श्री रघुनंदन शर्मा ने सभी पूर्व सदस्यों की ओर से विधान सभा अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जो निर्णय लिये है वे पूर्व में कभी नहीं हुये है उन्होंने श्री गौतम को सार्वभौमिक अध्यक्ष के रूप में निरूपित किया है।

प्रमुख सचिव, विधान सभा श्री ए.पी.सिंह ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों का यह सम्मेलन एक गरिमामय और ऐतिहासिक आयोजन है। हमे विश्वास है कि पूर्व सदस्यों का अनुभव का लाभ हम सभी को लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर विधान सभा के पूर्व सदस्यों ने डॉ. गौरशंकर शैजवार, श्री नारायण सिंह केसरी, श्रीमती सुधा जैन, श्री मधुकर हरणे, श्री रामगोपाल भारती, श्री अरूण मिश्रा, श्री नन्हेलाल धुर्वे, श्रीमती शशि ठाकुर, श्री जुगुलकिशोर गुप्ता, श्री वृजेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री जशवंत सिंह, श्री रामदयाल अहिरवार, श्री श्यामलाल ठक्कर सहित लगभग 260 पूर्व सदस्यगण उपस्थित थे।

वि.स./ज.स./22

(नरेन्द्र मिश्रा)
अवर सचिव